



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 63 राँची, मंगलवार, 10 माघ, 1939 (श०)

30 जनवरी, 2018 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

अधिसूचना

16 नवम्बर, 2017

संख्या-15/सा०अव०-03-03/2017 का.-11438 -- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-20-25-56-पर्व-1, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ वाचित परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट, 1881) 26-1881 की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, वर्ष 2018 में संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित पर्व/अवसरों पर राजपत्रित अवकाश घोषित करते हैं ।

2. वर्ष 2018 में संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित तिथियों को कार्यपालक आदेश के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय एवं राजस्व कार्यालय बन्द रहेंगे ।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-41/2/98 बी.ओ.॥ दिनांक 9 अगस्त, 2002 एवं पत्रांक-1/22/2012-बी.ओ.॥ दिनांक 9 जनवरी 2013 के साथ वाचित परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट, 1881) - 26 - 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल वर्ष 2018 में सम्पूर्ण राज्य में संलग्न अनुसूची-3 में उल्लिखित बैंक अवकाश घोषित करते हैं ।

टिप्पणी:- 1. चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है ।

2. राज्य सरकार के अधीन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में छः दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी ।

3. अनुसूची-3 में उल्लिखित बैंक लेखा वार्षिक बन्दी सरकारी अधिष्ठानों/कार्यालयों पर लागू नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुनीत कुमार,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----

## अनुसूची-1

वर्ष 2018 के लिए झारखण्ड राज्य में एन०आई०एक्ट, 1881 के तहत घोषित अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1939/1940)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ - 06	शुक्रवार	1
2.	महाशिवरात्री	14 फरवरी	माघ - 25	बुधवार	1
3.	होलिका दहन	01 मार्च	फाल्गुन - 10	गुरुवार	1
4.	होली	02 मार्च	फाल्गुन - 11	शुक्रवार	1
5.	सरहुल	20 मार्च	फाल्गुन - 29	मंगलवार	1
6.	महावीर जयंती	29 मार्च	चैत्र - 08	गुरुवार	1
7.	गुड फ्राईडे	30 मार्च	चैत्र - 09	शुक्रवार	1
8.	अम्बेदकर जयंती	14 अप्रैल	चैत्र - 24	शनिवार	1
9.	बुद्ध पूर्णिमा	30 अप्रैल	वैशाख - 10	सोमवार	1
10.	ईद-उल-फितर	16 जून	ज्येष्ठ - 26	शनिवार	1
11.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण - 24	बुधवार	1
12.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	22 अगस्त	श्रावण - 31	बुधवार	1
13.	जन्माष्टमी	03 सितम्बर	भाद्र - 12	सोमवार	1

## झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 30 जनवरी, 2018

14.	करमा पूजा	20 सितम्बर	भाद्र - 29	गुरुवार	1
15.	मुहर्रम	21 सितम्बर	भाद्र - 30	शुक्रवार	1
16.	महात्मा गाँधी का जन्म दिवस	02 अक्टूबर	आश्विन - 10	मंगलवार	1
17.	महाअष्टमी	17 अक्टूबर	आश्विन - 25	बुधवार	1
18.	महानवमी	18 अक्टूबर	आश्विन - 26	गुरुवार	1
19.	विजयादशमी	19 अक्टूबर	आश्विन - 27	शुक्रवार	1
20.	दीपावली	07 नवम्बर	कार्तिक - 16	बुधवार	1
21.	सूर्य षष्ठी डाला छठ (सायं अर्ध्य)	13 नवम्बर	कार्तिक - 22	मंगलवार	1
22.	मिलाद-उन- नबी या ईद- ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद का जन्म दिवस)	21 नवम्बर	कार्तिक - 30	बुधवार	1
23.	गुरुनानक जयंती	23 नवम्बर	अग्रहायण - 02	शुक्रवार	1
24.	क्रिसमस	25 दिसम्बर	पौष - 04	मंगलवार	1
	कुल दिन				24

टिप्पणी:- रामनवमी- 25 मार्च को रविवारीय अवकाश पड़ने के कारण उक्त तिथि को अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है, तथापि वैसे प्रतिष्ठान जहाँ रविवार सामान्य कार्यदिवस होता है, के लिए उक्त तिथि को अवकाश रहेगा ।

## अनुसूची-2

वर्ष 2018 के लिए झारखण्ड राज्य में कार्यपालक आदेश के तहत घोषित अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1939/1940)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	सोहराय	12 जनवरी	पौष - 22	शुक्रवार	1
2.	वसंत पंचमी	22 जनवरी	माघ - 02	सोमवार	1
3.	संत रविदास जयन्ती	31 जनवरी	माघ - 11	बुधवार	1
4.	मजदूर दिवस	01 मई	वैशाख - 11	मंगलवार	1
5.	हुल दिवस	30 जून	आषाढ़ - 09	शनिवार	1
6.	रथ यात्रा	14 जुलाई	आषाढ़ - 23	शनिवार	1
7.	गणेश चतुर्थी	13 सितम्बर	भाद्र - 22	गुरुवार	1
8.	विश्वकर्मा पूजा	17 सितम्बर	भाद्र - 26	सोमवार	1
9.	शारदीय नवरात्र आरंभ/कलश स्थापन	10 अक्टूबर	आश्विन - 18	बुधवार	1

10.	दशहरा (महासप्तमी)	16 अक्टूबर	आश्विन - 24	मंगलवार	1
11.	भातृ द्वितीय (भैयादूज)/चित्रगुप्त पूजा	09 नवम्बर	कार्तिक - 18	शुक्रवार	1
12.	छठ (प्रातः अर्घ्य)	14 नवम्बर	कार्तिक - 23	बुधवार	1
13.	भगवान बिरसा मुण्डा जयंती/राज्य स्थापना दिवस	15 नवम्बर	कार्तिक - 24	गुरुवार	1
	कुल दिन				13

टिप्पणी:- मकर संक्रांति - दिनांक 14 जनवरी को रविवारीय अवकाश पड़ने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है, तथापि वैसे प्रतिष्ठान जहाँ रविवार सामान्य कार्यदिवस होता है, के लिए उक्त तिथि को अवकाश रहेगा ।

## अनुसूची-3

वर्ष 2018 में एन०आई०एक्ट, 1881 के तहत बैंक लेखा बन्दी अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत 1939/1940)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	बैंक लेखा की वार्षिक बंदी	01 अप्रैल	चैत्र - 11	रविवार	1
	कुल दिन				01

-----